



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21—जुलाई 27, 2007 (आषाढ़ 30, 1929)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21—JULY 27, 2007 (ASADHA 30, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून 2007

सं. 03/04/73-प्रशासन--राष्ट्रपति जी, श्री महिताब सिंह, अनुभाग अधिकारी को उपराष्ट्रपति सचिवालय में अवर सचिव के पद पर रुपये 10,000-325-15,200/- वेतनमान में, दिनांक 27 जून, 2007 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अशोक दीवान, उप सचिव

दिनांक 29 जून 2007

सं. 03/02/80-प्रशासन--राष्ट्रपति जी, श्री संतोष कुमार, सहायक को उपराष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- वेतनमान में, दिनांक 29 जून, 2007 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अशोक दीवान, उप सचिव

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 जुलाई 2007

सं. ए. 22012/1/2007/पीएमए--राष्ट्रपति, श्री अमित अग्रवाल, आई.ए.एस. (सी.एच. : 1993), जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में उपसचिव के रूप में कार्यरत हैं, को दिनांक 1 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से केन्द्र में उनकी प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि जो 07.07.2009 तक होगी, के लिए अथवा अग्रिम आदेशों, जो भी पहले हो, तक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. ए. 22012/1/2007/पीएमए--राष्ट्रपति, श्री पी. के. राय, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को दिनांक 4 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

कमल दयानी, निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 31 मई 2007

सं. 7/1(1)/2007-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, मूहेंद्रगिरि, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इन्जीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
1.	श्री/श्रीमती/कुमारी सिसिर मंत्री	09.01.2006
2.	भाषिक शाह	10.01.2006
3.	हेमेंद्र कुमार धुरंधर	10.01.2006
4.	अनुराग विशाल	09.01.2006
5.	प्रवीन कुमार शर्मा	10.01.2006
6.	सरणु वेंकटरमणा	10.01.2006
7.	जीवनलाल बी. एस.	10.01.2006
8.	नीलोय घोष	10.01.2006
9.	नीरज कुमार मिश्रा	10.01.2006
10.	चंद्र शेखर एम.	10.01.2006
11.	कृष्ण कुमार एस.	10.01.2006
12.	रेंजु जे. थामस	10.01.2006
13.	आयशा रुबना	09.01.2006
14.	आदित्य चौकुलकर	09.01.2006
15.	अनंत सामंता	09.01.2006
16.	अनिश के. सी.	09.01.2006
17.	अनुपम रॉय	09.01.2006
18.	दीपक वी. एम.	10.01.2006
19.	महेंद्र कुमार ठाकरे	10.01.2006
20.	मनु वारियर	09.01.2006
21.	राबिन अलेक्सैंडर	09.01.2006
22.	पटेल जिगरकुमार गणपत भाई	10.01.2006
23.	राजीव जैन	09.01.2006
24.	शैमैंदर सिंह विराट	10.01.2006
25.	सिजु के. मैथ्यू	10.01.2006
26.	विकाश कुमार	09.01.2006
27.	अभिषेक गुप्ता	09.01.2006

1	2	3
28.	कार्तिकेयन एन.	09.01.2006
29.	नरसिंह राव बल्ला	10.01.2006
30.	विकास गुप्ता	10.01.2006
31.	विनोत बी.	11.01.2006
32.	अनंत वेलन एम.	09.01.2006
33.	अंधालकर विशाल दत्तात्रेय	10.01.2006
34.	जेरेमरय्या जोति राज पी.	09.01.2006
35.	पेरुमल पिल्लै आर.	10.01.2006
36.	सत्यनारायण इमणि वी. आर.	10.01.2006
37.	सेतिल कुमार के.	10.01.2006
38.	सुबोध कुमार	09.01.2006
39.	डब्ल्यू. विन्सियांटो	10.01.2006
40.	अश्विनि गुप्ता	11.01.2006
41.	कुरियन जॉन	11.01.2006
42.	प्रदीप कुमार	11.01.2006
43.	राहुल कुमार	24.02.2006
44.	मोहम्मद अजीमुल्ला	24.02.2006
45.	बिस्वजीत बनिक	24.02.2006
46.	अमर श्रीवास्तव	24.02.2006
47.	मुकुंद कांत पांडे	23.02.2006
48.	दीपक कुमार गुप्ता	24.02.2006
49.	वार्ता वेंकटेश्वरलु	24.02.2006
50.	केसव मूर्ति पी.	24.02.2006
51.	नवीन चंद्र भट्ट	09.11.2006

के. एस. रामचंद्र, अवर सचिव

सं. 7/1(2)/2007--अन्तरिक्ष विभाग ने द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :

क्रम सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कुमारी		
1.	पी. रघूत्तम राव	वैज्ञानिक अभियंता जी	30.06.2006
2.	एम. ए. नंजुंड स्वामी	वैज्ञानिक अभियंता एसडी	31.07.2006

के. एस. रामचंद्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2007

सं. एफ.6(1969)/2006-प्रशा.1--अफगानिस्तान में क्षमता विकास सुविधा के लिए त्रिपक्षीय (भारत-अफगानिस्तान-यू.एन.डी.पी.) परियोजना के लिए अफगानिस्तान सरकार के प्रशिक्षक/सलाहकार के पद पर नियुक्ति के उनके चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, योजना आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को अफगानिस्तान सरकार में पदभार संभालने हेतु योजना आयोग से दिनांक 1 जून, 2007 (अपराह) से कार्यमुक्त किया जाता है :-

- (i) श्री आई. ए. खान, उप सलाहकार (मॉनीटरिंग/विद्युत)
- (ii) श्री अमिताभ रे, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (पी.एम.डी.)

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 15 जून 2007

सं. एफ.6(1337)/87-प्रशासन-1--अफगानिस्तान में क्षमता विकास सुविधा के त्रिपक्षीय (भारत-अफगानिस्तान-यू.एन.डी.पी.) परियोजना के लिए अफगानिस्तान सरकार के प्रशिक्षक/सलाहकार के पद पर नियुक्ति के लिए उनके चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, श्री आर. सी. महाजन, सलाहकार (पेट्रोलियम), योजना आयोग को अफगानिस्तान सरकार में कार्यभार संभालने हेतु दिनांक 15 जून, 2007 (अपराह) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 21 जून 2007

सं. एफ.6(2021)/2007-प्रशा.1--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 15.06.2007 के आदेश सं. 12016/4/जे.ए.जी.(तदर्थ)/05-06/2005-आई.एस.एस. के तहत आई.एस.एस. के एस.टी.एस. से जे.ए.जी. पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप, आई.एस.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी श्री एफ. यू. खॉन ने दिनांक 15.06.2007 (अपराह) से योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि तदर्थ नियुक्ति समयावधि व्यवस्था के लिए तात्कालिक उपाय के तौर पर की गई है तथा इसे किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया/वापिस लिया जा सकता है। उक्त पदोन्नति से अधिकारी को उक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और न ही तदर्थ कार्य अवधि उनकी वरीयता के लिए अथवा अगले ग्रेड में उनकी पदोन्नति के लिए गिनी जाएगी।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 27 जून 2007

सं. एफ.6(2022)/2007-प्रशासन-1--सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 29.01.2007 के आदेश

सं. 12015/3/2006-आई.एस.एस. (खण्ड-2) का अनुपालन करते हुए आई.एस.एस. के एन.एफ.एस.जी. अधिकारी श्री एस.एम. महाजन ने दिनांक 26.06.2007 के पूर्वाह से योजना आयोग में 14,300--18,300/- रु. के वेतनमान में निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. ए-12025/8/2005-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, योजना आयोग में उप सलाहकार श्री के. एन. पाठक और श्री शत्रुघ्न लाल को 14,300--18,300/- रु. के वेतनमान में योजना आयोग में क्रमशः संयुक्त सलाहकार (परियोजना अंकन) तथा संयुक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र/प्रबंधन) के पद पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर दिनांक 21 जून, 2007 के पूर्वाह से एक वर्ष के लिए अथवा उक्त पदों के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. योजना आयोग के दिनांक 4 अप्रैल, 2007 के अधिसूचना सं. ए-12025/5/2007-प्रशासन-1 का आंशिक संशोधन करते हुए यह भी अधिसूचित किया जाता है कि श्री आर. के. कौल की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 21 जून, 2007 के पूर्वाह से संयुक्त सलाहकार (औद्योगिक अर्थशास्त्र/प्रबंधन) के पद पर माना जाता है तथा नियुक्ति की अवधि पहले की अधिसूचना के अनुसार ही अर्थात् दिनांक 19 सितम्बर, 2007 तक होगी।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारियों को संयुक्त सलाहकार के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा और न ही संयुक्त सलाहकार के ग्रेड में तदर्थ कार्य अवधि न तो उनकी संयुक्त सलाहकार के ग्रेड में वरीयता के लिए न ही अगली ग्रेड में उनकी पदोन्नति के लिए गिनी जाएगी।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 29 जून 2007

सं. एफ.6(1846)/2002-प्रशा.1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, योजना आयोग में तदर्थ उप सलाहकार (डाय बैक), श्री शशि कान्त, दिनांक 30.06.2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सं. एफ.6(2017)/2007-प्रशा.1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, आई.ई.एस. की जे.ए.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में उप सलाहकार श्रीमती कैलाश कोच्चर, दिनांक 30.06.2007 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होती हैं।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. ए-19/जी.ए/88/2483--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्री आर. सी. मिगलानी, ग्रेड-I (डीएसएस) अधिक्षक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निजी सचिव के संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त थे, दिनांक 30.06.2007 (अपराह) से सेवानिवृत्त हो गए।

स्टैंडहोप युहलुंग
अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

चेन्नई, दिनांक 6 जुलाई 2007

सं. ए-38013/3/2006-प्रशा./चेन्नई--विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शाखा सचिवालय, चेन्नई में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग का अनुभाग अधिकारी श्री जे. जायस अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 30 जून 2007 के अपराह से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. राजांगम, अपर सरकारी वकील

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. ए-12034/2/2004प्रशा.-IV(वि.का.)भाग-II--राष्ट्रपति ने श्री एम. अन्नादुरै (आई.आर.एल.ए. नं. 14673) (इस समय अपर निजी सचिव के पद पर कार्यरत) को दिनांक 01.03.2007 के पूर्वाह से माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) के वैयक्तिक अनुभाग में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। तथापि, श्री एम. अन्नदुरै कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 मार्च, 1998 के का. ज्ञा. सं. 2/8/97-स्था.(वेतन-II) में निहित अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता पाने के पात्र होंगे।

2. श्री एम. अन्नादुरै की यी प्रतिनियुक्ति विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री के. वेंकटपति के प्रसादपर्यंत तथा उनके कार्यकाल तक के लिए है।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. I-18012/16/2006-आईपीएस-I--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 की नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के

निम्नलिखित सदस्यों को, उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट तारीखों से, भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख
	सर्वश्री	
1.	शिशु रंजन पाल	06.02.2002
2.	सुब्रता सरकार	06.02.2002
3.	शंकर सिंह	21.04.2004
4.	सरोज कुमार गजमेर	01.03.2005
5.	श्याम कुमार भट्टाचार्या	23.03.2006

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. I-145014/2/2006-आईपीएस-I--2002 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की नागालैंड संवर्ग की अधिकारी सुश्री सोनिया वर्मा को अब से सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए "श्रीमती सोनिया सिंह" के नाम से जाना और पहचाना जाएगा।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. I-45014/1/2007-आईपीएस-I--1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग की अधिकारी श्री वी. मधु कुमार बाबू को अब से सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए "वी. मधु कुमार" के नाम से जाना और पहचाना जाएगा।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. 14031/1/2007-यूटीएस-I--संयुक्त अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री रतन लाल मीणा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, 30 जून, 2007 के अपराह से सेवानिवृत्त हो गए।

वी. के. गुप्ता, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2007

सं. 13017/6/2007-अ.भा.से.(I)--केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तराखंड और पंजाब सरकारों

की सहमति से, एतद्द्वारा श्री सुखबीर सिंह संधू, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखंड : 88) की उत्तराखंड के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से पंजाब सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में, तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति की अनुमोदन करती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने यह आदेश दिया है कि यह अनुमोदन इस शर्त के अध्वधीन है कि श्री सुखबीर सिंह संधू, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखंड : 88) को मुख्य मंत्री, पंजाब के सचिव के रूप में तैनात किया जाता है, जैसा कि पंजाब सरकार द्वारा उल्लेख किया गया है।

अश्वनी कुमार, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. 39019/02/2007-स्था.(ख)--सुश्री चोकिला अय्यर ने अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 28 जून, 2007 (अपराह) से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद को त्याग दिया है।

श्रीमती सती मोहनदास, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. ए-19013/01/2007-प्र.सु.(प्र.-I)--राष्ट्रपति, श्री रामू गुप्ता को दिनांक 6 जून, 2007 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुराग श्रीवास्तव, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2007

सं. क्यू/पीए-1/29/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर मेलबोर्न स्थित भारत के प्रधान कौंसुलावास में प्रधान कौंसुल श्री बुतकिशन सिंह 31.05.2007 के अपराह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए।

अखिनो विमल, अवर सचिव (एफएसपी)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2007

सं. ए-22011/1/2007-प्रशा.1ए--इस विभाग की दिनांक 4 अप्रैल, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए,

2-15261/07

राष्ट्रपति भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ समयमान स्तर के अधिकारी श्री वी. के. गुप्ता को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 28 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से (कल्पित प्रोन्नति की तिथि 06.04.2004) और अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में सहायक सलाहकार नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. ए.19011/20/2004-प्रशा.2--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप सचिव श्री नागराजू मड्डिराला, भाप्रसे (एमटी : 93) को इसी विभाग में उनके लिए वैयक्तिक उपाय के रूप में 2 जुलाई, 2007 से 15.11.2009 तक उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो निदेशक नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

सं. ए.19011/14/2005-प्रशा.2--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप सचिव श्री अनुज अरोड़ा, भाप्रसे (आईटी : 93) को इसी विभाग में उनके लिए वैयक्तिक उपाय के रूप में 2 जुलाई, 2007 से 15.08.2010 तक उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो निदेशक नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. ए.19011/04/2007-प्रशा.-2--राष्ट्रपति, डॉ. डी. सुब्बा राव, भा.प्र.से. (आन्ध्र प्रदेश : 72) वर्तमान में सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) को 04 जुलाई, 2007 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेश तक वित्त सचिव और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) नियुक्त करते हैं।

एस. के. वर्मा, निदेशक

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2007

सं. ए-11019/2/2007-ई.जी.--राष्ट्रपति, भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के श्री प्रमोद कुमार मिश्र-II को दिनांक 02.04.2007 (पूर्वाह्न) से प्रधान महोलेखाकार (सिविल लेखा-परीक्षा) कार्यालय, उड़ीसा, भुवनेश्वर में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अगले आदेशों तक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. प्रेम आनन्द, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जून 2007

सं. पीएफजी (936)/07-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री सुनील गुप्ता, आईआरएस (आईटी : 87) को दिनांक 18.06.2007 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि तक या मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में स्वतः कार्य सम्पन्न कर देने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए निदेशक के स्तर पर माननीय कारपोरेट मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. टली, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2007

सं. 21/2007 (ए-19011/23/2007-ई-1)--राष्ट्रपति द्वारा श्री आर. एस. गुजराल, आईएएस (हरियाणा - 76) को श्री बी. एस. मीना, आईएएस (महाराष्ट्र : 75) के स्थान पर दिनांक 15 जून, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत विदेश व्यापार महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. 6/2430/2007/मा.सं.वि.-1/3137--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मण्डलीय संयुक्त निदेशक, विदेश व्यापार (निदेशक स्तर) के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप श्री प्रनोबानंदा हल्दर ने दिनांक 1 जून, 2007 से कोलकाता के मण्डलीय संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार का पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यभार संभाल लिया है।

मुकेश भटनागर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2007

सं. 12/2007 (ए-12026/3/2006-स्था.)--राष्ट्रपति, श्रीमती के. निर्मला पत्नी श्री टी. वसन्त कुमार, निवासी एजी 103, रिवर व्यू कालोनी, न्यू नं. 55, अन्ना नगर, चेन्नई को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 1 अप्रैल, 2007 के पूर्वाह्न से वस्त्र राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. ईलंगोवन) के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती के. निर्मला की नियुक्ति श्री ई. वी. के. एस. ईलंगोवन, वस्त्र मंत्री की सह-अवधि के आधार पर अथवा जब तक वस्त्र राज्य मंत्री चाहेंगे तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

जे. पी. दत्त, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2007

सं. ए-32011/4/2005-स्थापना--राष्ट्रपति, अनुभाग अधिकारियों के वर्ग में अंतर-संवर्ग स्थानांतरण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.02.2007 के का.ज्ञा. संख्या 5/25/04-सीएस.1 की शर्तों पर, श्री अखिलेश कुमार, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के संवर्ग में धारित अनुभाग अधिकारी हैं, को अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड (वरिष्ठता कोटा) की वर्ष 2003 की चयन सूची के अनुसार 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 21.05.2007 के पूर्वाह्न से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2007

सं. पी-23011/1/2006-विपणन--केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, एतद्वारा सुश्री सुधा महालिंगम को 3 जुलाई, 2007 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम बोर्ड (पीएनजीआरबी) के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

प्रेम कुमार, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2007

सं. 1/2/उउसस/2007-प्रशासन-I--उर्वरक विभाग के संवर्ग के सहायक निदेशक (कार्यात्मक), श्री अनिल कुमार गोयल को उर्वरक समन्वय समिति कार्यालय में 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में 31.05.2007 (अपराह्न) के प्रभाव से लेखाधिकारी के पद पर आरंभिक तौर पर तीन वर्ष के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए राष्ट्रपति जी की मंजूरी की जाती है।

एम. दण्डायुधपाणी, निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 2007

सं. 3/24/2004-स्था.--राष्ट्रपति, खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) के निजी सचिव श्री जे. एस. मान को 08.03.2007 से 3.06.2008 तक अर्थात् उनकी सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने या जब तक वह मंत्री के निजी सचिव के पद पर हैं या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, मंत्री के निजी सचिव के रूप में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रमोद चन्द, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2007

सं. ए-18011/(90)/2007-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री अवनीश रस्तोगी को 14 जून, 2007 (अपराह्न) से पूर्णतया तदर्थ आधार पर 30 जून, 2007 तक की आरंभिक अवधि के लिए अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री रस्तोगी की तदर्थ नियुक्ति से उन्हें, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी संवर्ग में जारी रखने अथवा नियुक्ति के लिए चयनित सूची में शामिल करने अथवा वरिष्ठता संबंधी दावा करने का अधिकार नहीं होगा। उनकी तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक कि अनुभाग अधिकारी संवर्ग में वरिष्ठता कोटे और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियमित उम्मीदवार उपलब्ध न हो जाएं। नियमित नियुक्ति के लिए दोनों ही श्रेणियों में अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से ऐसे नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक संवर्ग में रिवर्ट कर दिया जाएगा।

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान केबल लि. का कार्यालय, कोलकाता में उप प्रबंधक (सचिवालय) श्री संदीप बिश्वास की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (विधि) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 16.08.2007 से 15.08.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, सुश्री यू. के. धरथरे की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 8,000--13,500/- रुपये के

वेतनमान में सहायक निदेशक (लेखा/वित्त) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18.05.2007 से 17.05.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती सी. आर. धावले की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (आर्थिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18.05.2007 से 17.05.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री जे. डी. वैशम्पायन की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (विधि) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18.05.2007 से 17.05.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, वायदा बाजार आयोग का कार्यालय, मुम्बई में उप निदेशक श्री अनुपम मिश्रा की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान में निदेशक (सुविधा, जनसंपर्क शिकायत प्रतिक्रिया/जन जागरूकता कार्यक्रम) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18.05.2007 के पूर्वाह्न से 17.05.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री बी. डी. रायभोले की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (आर्थिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 25.05.2007 से 24.05.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय तथा मुख्य पंजीयक (जन्म और मृत्यु) का कार्यालय, दिल्ली में सहायक प्रोग्रामर श्रीमती रश्मी अग्रवाल की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (आई.टी.) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 28.06.2007 के

पूर्वाह्न से 27.06.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यालय में उप निदेशक श्री प्रभाकर आर. पाटिल की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 14,300--18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक (आर्थिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 18.08.2007 से 17.08.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री वी. एन. शिवथरे, आर्थिक अधिकारी की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (आर्थिक) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 29.09.2007 से 28.09.2008 तक एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-11011/03/2004-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री एस. जी. कुलकर्णी की वायदा बाजार आयोग, मुम्बई में 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 11.10.2007 से 10.10.2008 तक एक वर्ष की अवधि (तीसरा वर्ष) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 29 जून 2007

सं. ए-38018/02/2007-स्था.--राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के निजी सचिव श्री विनोद कुमार गुप्ता को 30.06.2007 (अपराह्न) को सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त करते हैं।

ए. के. तनेजा, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 जुलाई 2007

सं. पुर्विम/31/3/2007-स्था.--पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी, श्री आशिम कुमार मजूमदार और श्री एस. के. चौधरी,

कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में दिनांक 20.10.2006 से दिनांक 18.04.2007 तक तथा दिनांक 20.04.2007 से दिनांक 19.10.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ नियुक्ति से भविष्य में वरिष्ठता आदि जैसे लाभों के लिए नियमित करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय को कोई कारण बताए बिना अथवा नोटिस आदि दिए बिना संबंधित अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 जून 2007

सं. ए-23012/1/2005-पी.11--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जून, 2006 और 15 मई, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/25/2004-सीएस-I के तहत, वरिष्ठता कोटे के तहत वर्ष 2003 हेतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप, श्री पी. सी. मंगई, अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में 15 मई, 2007 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जफरूल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2007

सं. ए.32013/4/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री प्रवीर कृष्ण, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 87) को 28 मई, 2007 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 15.02.2009 तक के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. आर. ए. नायर, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2007

सं. ए.11019/2/2005-पी.एच.(फूड)--अधिवर्षिता वय प्राप्त कर लेने पर डॉ. वी. के. ढोंगरा, निदेशक, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद, दिनांक 31.05.2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

विजय कुमार, निदेशक प्रशासन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2007

सं. ए.32024/1/2006-स्था.-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं. 5/8/2006-सी.एस.-II दिनांक 01.03.2007 और 20.04.2007 के अनुसरण में राष्ट्रपति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के सी.एस.एस.एस. कैडर की श्रीमती हरबंस कौर, आशुलिपिक, ग्रेड 'सी' को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के कैडर में 01.06.2007 (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में 30.06.2007 तक अथवा आगामी आदेश तक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. के. मिश्रा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अप्रैल 2007

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों (एसएल 1994) को इसी विभाग में तदर्थ आधार पर प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से, प्रारंभतः 30.06.2007 तक की अवधि के लिए 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में बतौर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	जन्म तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री रेमंड टिंगा	अनुसूचित जन जाति	03.07.1957	24.04.2007
2.	श्रीमती प्रेरणा शर्मा	अनुसूचित जन जाति	03.02.1964	18.04.2007

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(क) इन तदर्थ प्रोन्नतियों/नियुक्तियों से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) वरिष्ठता कोट और/या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक यह तदर्थ व्यवस्था जारी रह सकती है। तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त न करने पर, उन्हें नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव

दिनांक 3 मई 2007

सं. ए-12033/1/2003-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री बलराम शर्मा, भा.प्र. सेवा (हि.प्र.-85) को 30 अप्रैल, 2007 से 28 फरवरी, 2009 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव

दिनांक 8 मई 2007

सं. ए-32014/2/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्रीमती सविता अरोड़ा जो गृह मंत्रालय में आशुलिपिक श्रेणी "ग" हैं, को दूरसंचार संवर्ग में आशुलिपिक "क और ख" (आमेमित) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति हेतु मनोनीत किए जाने पर, दिनांक 01.05.2007 से 30.06.2007 तक अथवा नियमित निजी सचिव [आशुलिपिक श्रेणी "क और ख" (आमेमित)] के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में दूरसंचार विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक श्रेणी "क और ख" (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इस नियुक्ति से उक्त ग्रेड में आमेलन या निजी सचिव ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड "क और ख" (आमेमित)] में वरिष्ठता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव

दिनांक 16 मई 2007

सं. ए-32014/2/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय की ग्रेड "सी" आशुलिपिक श्रीमती सरोज कपिला को दूरसंचार संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक "ए" और "बी" (विलयित) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करने के लिए नामित किए जाने के परिणामस्वरूप उनको 07.05.2007 (अपराह्न) से 30.06.2007 तक के लिए अथवा नियमित निजी सचिव [आशुलिपिक ग्रेड "ए" और "बी" (विलयित)] उपलब्ध होने अथवा अगले आदेश किए जाने तक, इनमें से जो पहले हो, दूरसंचार विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "ए" और "बी" (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई है और इसके द्वारा अधिकारी को निजी सचिव के ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड "ए" और "बी" (विलयित)] में आमेमित किए जाने अथवा वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव

दिनांक 18 मई 2007

सं. 36-1/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) के औपचारिक स्टाफ में 16 मई, 2007 के पूर्वाह्न से निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित पदों पर तथा वेतनमानों में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं वेतनमान	मूल विभाग में पदनाम
	सर्वश्री		
1.	असीरबादम अचारी	अतिरिक्त निजी सचिव 10,000--15,200/- रु.	अनुभाग अधिकारी, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड
2.	आर. वैकटेश्वरन	अतिरिक्त निजी सचिव 10,000--15,200/- रु.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सीएमटीएस), बीएसएनएल, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
2.	डी. वेल्लेसामी	सहायक निजी सचिव 6,500--10,500/- रु.	वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पेरम्बलूर, तमिलनाडु
4.	पी. अरिवुचेलवन	प्रथम वैयक्तिक सहायक 6,500--10,500/- रु.	गैर सरकारी

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के स्वेच्छा निर्णय पर तथा उनके कार्यकाल तक के लिए है।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2007

सं. ए-12026/1/2005-प्रशा.-I--वित्त मंत्रालय, आर्थिक-कार्य विभाग के दिनांक 16.05.2007 के आदेश सं. 11016/3/2007-आईईएस के तहत सुश्री इन्दराणी कौशल की आईईएस के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के परिणामस्वरूप तथा तदंतर दूरसंचार विभाग में उनके नामांकन होने पर सुश्री इन्दराणी कौशल, आईईएस को एतद्वारा 25 मई, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में दूरसंचार विभाग में उप आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. सुश्री इन्दराणी कौशल की पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील 1366-1367/2004 और दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका 5953/2002 के अंतिम निर्णय पर अध्यधीन है।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

सं. ए-32014/2/2006-प्रशा.-I--इस विभाग की दिनांक 16 मई, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक आशोधन में श्रीमती सरोज कपिला द्वारा दूरसंचार विभाग में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय

सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) का पदभार ग्रहण करने की तारीख को 07.05.2007 (अपराह्न) के स्थान पर 07.05.2007 (पूर्वाह्न) पढ़ा जाए।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव

दिनांक 19 जून 2007

सं. ए-12026/1/2005-प्रशा.-I--भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नत होने और तत्पश्चात् वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 06.06.2007 के आदेश सं. 11016/3/2007-भा. आ.से. के तहत दूरसंचार विभाग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री अजय श्रीवास्तव, भा.आ.से., को 13 जून, 2007 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में दूरसंचार विभाग में उप-आर्थिक सलाहकार के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अजय श्रीवास्तव की प्रोन्नति सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सिविल अपील 1366-1367/2004 और दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित सिविल रिट याचिका 5953/2002 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन है।

श्रीमती टी. कुंदवी, अवर सचिव

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जुलाई 2007

सं. 2(5)/2006-पीए(टीबी)--राष्ट्रपति जी ने श्री अमिताभ रंजन, एटीआरओ, परिवहन आयुक्त का कार्यालय, लखनऊ को एसटीक्यूसी निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण और विकास केन्द्र (ईटीडीसी), पुणे में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 22.06.2007 के पूर्वाह्न से आरम्भतः दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों एवं निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर उपनिदेशक नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

सं. 2(5)/2006-पीए(टीबी)--राष्ट्रपति जी ने श्री जी. एस. नम्बूतिरी, अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, ईआरटीएल (दक्षिण), तिरुवनन्तपुरम में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 18.05.2007 के पूर्वाह्न से आरम्भतः दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों एवं निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर उपनिदेशक नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

सं. 2(5)/2006-पीए(टीबी)--राष्ट्रपतिजी ने श्री पी. पी. गर्ग, अनुभाग अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, ईआरटीएल (पश्चिम), मुम्बई में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 13.06.2007 के पूर्वाह्न से आरम्भतः दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों एवं निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. 2(5)/2006-पीए(टीबी)--राष्ट्रपतिजी ने श्री एस. एस. रावत, उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली को एसटीक्यूसी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, ईआरटीएल (उत्तर), नई दिल्ली में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 27.06.2007 के पूर्वाह्न से आरम्भतः दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों एवं निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है।

सतवीर सिंह, उप निदेशक

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जुलाई 2007

सं. 9-25/2007-एसपीजी--डाक विभाग में डाक सेवा समूह "ख" के अधिकारी, श्री आर. के. मालतरे, डेस्क अधिकारी (योजना), अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30.06.2007 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 29 जुलाई 2007

विषय : भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के वरिष्ठ समयमान (10,000-325-15,200 रु.) में प्रोन्नत।

सं. 4-2/2007-एसपीजी--राष्ट्रपति, भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के निम्नलिखित कनिष्ठ समयमान अधिकारियों को कथित सेवा के वरिष्ठ समयमान (वेतनमान 10,000-325-15,200 रु.) में 01.04.2007 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	बैच	वर्तमान तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	मुराहरी जी. जी.	--	आंध्र प्रदेश सर्किल
2.	गुरुदास बी.	--	आंध्र प्रदेश सर्किल
3.	भवर एल. बी.	--	महाराष्ट्र सर्किल

1	2	3	4
4.	सुश्री जोशी सुचिता ए.	2002 *	महाराष्ट्र सर्किल
5.	श्रीनिवासन जगन्नाथ	2002 *	दिल्ली सर्किल
6.	सुश्री शर्मा शिप्रा	2002 *	मध्य प्रदेश सर्किल
7.	शर्मा अमन	2002 *	दिल्ली सर्किल
8.	सुश्री अयोध्या सुमिता	2002 *	आंध्र प्रदेश सर्किल
9.	सुश्री एन. आर. विसालाची	2002 *	आंध्र प्रदेश सर्किल
10.	दक्ष विवेक कुमार	2002 *	उत्तर प्रदेश सर्किल
11.	सिंह इकबाल	--	हिमाचल प्रदेश सर्किल
12.	गंगल बी. एस.	--	राजस्थान सर्किल

*वरिष्ठता अनंतिम है।

2. अधिकारी यदि एफ.आर.-22(i)(क)(i) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्हें आदेश के जारी होने की तारीख से एक माह के अंदर विकल्प देना होगा।

3. कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं. 2201122/91-स्था. दिनांक 14.09.1992 जिसे इस कार्यालय के ज्ञापन सं. 25-19/88-एसपीजी दिनांक 13.10.1992 के तहत परिचालित किया गया था, में उल्लिखित किस्म का कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कर्मचारी के खिलाफ लंबित है, तो इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट कार्यालय को तत्काल भेजी जाए और संबंधित अधिकारी को इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए।

4. संगत प्रभार रिपोर्ट इस कार्यालय को नियत समय पर और शीघ्रताशीघ्र भेज दी जाए।

बी. पी. पंत, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2007

सं. ए.38020/01/2006-स्था.-II--सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली में केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) ग्रेड 'क' के अधिकारी श्री टी. बी. बैनर्जी, मुख्य अभियन्ता, दिनांक 30.06.2007 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

बी. ना. मिश्रा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2007

सं. 11/07-फा.सं. 1/2/2006-प्रशा.दो--राष्ट्रपति, श्री महेश दत्त शर्मा, सुपुत्र श्री घनश्याम दत्त शर्मा, निवासी एन.एच.-2, आंध्रा भवन, अशोक

रोड, नई दिल्ली, जो कि वर्तमान में माननीय विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिन्डे) के निजी कार्यालय में सहायक निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में, 13 जून, 2007 के पूर्वाह्न से, विद्युत मंत्री के अपर निजी सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर या मंत्री के वर्तमान कार्यकाल के साथ-साथ तक या मंत्री के चाहने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 21 जून 2007

सं. 12/07-फा.सं. 1/2/2006-प्रशा.दो--राष्ट्रपति, श्री पुष्कर शर्मा, लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ लिपिक, जो कि वर्तमान में माननीय विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिन्डे) के निजी कार्यालय में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, को 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में, 18 जून, 2007 के पूर्वाह्न से, विद्युत मंत्री के सहायक निजी सचिव के पद पर, नियुक्त करते हैं। श्री शर्मा की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी तथा मंत्री के वर्तमान कार्यकाल के साथ-साथ तक या मंत्री के चाहने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. 13/07-फा.सं. 2/2/2007-प्रशा.दो--राष्ट्रपति, श्री राजेश वर्मा, भा.प्र.से. (उड़ीसा : 1987) को, 2 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से, उनके पांच वर्ष के सामान्य कार्यकाल की बाकी अवधि यानी 01 अप्रैल, 2009 तक, या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2007

सं. 6/384/06-प्रशासन-I--राष्ट्रपति द्वारा वित्त मंत्रालय में सीएसएस संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री ए. के. जोशी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री ए. के. जोशी की तदर्थ प्रोन्नति के फलस्वरूप उन्हें अनिश्चित रूप से इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयनसूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस. के. बेदी, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2007

सं. 7/22/2005-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड में श्री मौजेश ताराचन्द अग्रवाल को 17.05.2007 से 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक कार्यपालक इन्जीनियर के रूप में नियुक्त करते हैं।

वे अपने कार्यग्रहण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे यदि आवश्यक समझा गया तो सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सोहनसिंह सैनी, अवर सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 28th June 2007

No. 03/04/73-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Mahitab Singh, Section Officer as Under Secretary in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 27th June, 2007 (FN) until further orders.

ASHOK DEWAN, Dy. Secy.

The 29th June 2007

No. 03/02/80-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar, Assistant as Section Officer in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 29th June, 2007 (FN) until further orders.

ASHOK DEWAN, Dy. Secy.

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 1st July 2007

No. A-22012/1/2007-PMA.—The President is pleased to appoint Shri Amit Agrawal, IAS (CH : 1993) presently appointed as Deputy Secretary in the Prime Minister's Office as Director with effect from the forenoon of 1st July, 2007, for the remaining period of his Central Deputation which would be upto 07.07.2009 or until further orders, whichever event occurs earlier.

P. K. ROY, Under Secy.

New Delhi-110011, the 4th July 2007

No. A-22012/1/2007-PMA.—The President is pleased to appoint Shri P. K. Roy, CSS, presently holding the post of Under Secretary in the Prime Minister's Office as Deputy Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 4th July 2007 until further orders.

KAMAL DAYANI, Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 31st May 2007

No. 7/1(1)/2007-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Sisir Mantry	09.01.2006
2.	Bhavik Shah	10.01.2006
3.	Hemendra Kumar Dhurandher	10.01.2006

1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
4.	Anurag Vishal	09.01.2006
5.	Prabeen Kumar Sharma	10.01.2006
6.	Sargu Venkataramana	10.01.2006
7.	Jeevanlal BS	10.01.2006
8.	Niloy Ghosh	10.01.2006
9.	Niraj Kumar Mishra	10.01.2006
10.	Chandra Sekhar M	10.01.2006
11.	Krishnakumar S	10.01.2006
12.	Renju J Thomas	10.01.2006
13.	Ayisha Rubna	09.01.2006
14.	Aditya Choukulkar	09.01.2006
15.	Ananta Samanta	10.01.2006
16.	Anish KC	09.01.2006
17.	Anupam Roy	09.01.2006
18.	Deepak VM	10.01.2006
19.	Mahendra Kumar Thakre	10.01.2006
20.	Manu Varrier	09.01.2006
21.	Robin Alexander	09.01.2006
22.	Patel Jigarkumar Ganapat Bhai	10.01.2006
23.	Rajeev Jain	09.01.2006
24.	Shainender Singh Virat	10.01.2006
25.	Siju K Mathew	10.01.2006
26.	Vikash Kumar	09.01.2006
27.	Abhishek Gupta	09.01.2006
28.	Karthikeyan N	09.01.2006
29.	Narasimha Rao Balla	10.01.2006
30.	Vikas Gupta	09.01.2006
31.	Vinoth B	11.01.2006
32.	Anantha Velan M	09.01.2006
33.	Andhalkar Vishal Dattatray	10.01.2006
34.	Jeremiah Jothi Raj P	09.01.2006
35.	Perumal Pillai R	10.01.2006
36.	Satyanarayana Emani VR	10.01.2006
37.	Senthil Kumar K	10.01.2006
38.	Subodh Kumar	09.01.2006
39.	W. Vinseantro	10.01.2006
40.	Ashwani Gupta	11.01.2006

1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
41.	Kurain John	11.01.2006
42.	Pradeep Kumar	09.01.2006
43.	Rahul Kumar	24.02.2006
44.	Mohammed Azimullah	24.02.2006
45.	Biswajith Banik	24.02.2006
46.	Amar Srivastava	24.02.2006
47.	Mukund Kanth Pande	23.02.2006
48.	Deepak Kumar Gupta	24.02.2006
49.	Varsha Venkateswarulu	24.02.2006
50.	Kesava Murthy P	24.02.2006
51.	Naveen Chandra Bhatt	09.11.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 7/1(2)/2007-I.—Consequent on attaining the age of superannuation the following Officers in the Liquid Propulsion Systems Centre, of the Department of Space having relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum/		
1.	P. Raghubhama Rao	Scientist/Engineering G	30.06.2006
2.	M. A. Nanjuda Swamy	Scientist/Engineering SD	31.07.2006

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 1st June 2007

No. F.6(1969)/2006-Admn.I.—Consequent on their selection for appointment as Coach/Adviser to Govt. of Afghanistan for the Tripartite (India-Afghanistan-UNDP) Project on the Capacity Development Facility in Afghanistan, the following officers of the Planning Commission are relieved from the Planning Commission w.e.f. 1st June, 2007 (AN) to join Govt. of Afghanistan :—

1. Shri I. A. Khan, Deputy Adviser (Monitoring Power)
2. Sh. Amitabha Ray, Senior Research Officer (PAMD)

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 15th June 2007

No. F.6(1337)/87-Admn.I.—Consequent on his selection for appointment as Coach/Adviser to Govt. of Afghanistan

for the Tripartite (India-Afghanistan-UNDP) Project on the Capacity Development Facility in Afghanistan, Shri R. C. Mahajan, Adviser (Petroleum), Planning Commission is relieved from the Planning Commission w.e.f. 15th June, 2007 (AN) to join Govt. of Afghanistan.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 21st June 2007

No. F.6(2021)/2007-Admn.I.—Consequent on his promotion from STS to JAG of ISS on adhoc basis vide Ministry Of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12016/4/JAG(adhoc)/05-06/2005-ISS dated 15.06.2007, Shri F. U. Khan, JAG officer of ISS has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad-hoc basis w.e.f. 15.06.2007 (AN).

2. It is made clear that this promotion has been made purely as a temporary measure as a stopgap arrangement and can be withdrawn/cancelled any time without assigning any reason. The promotion shall not bestow on him any claim for regular appointment and adhoc service will not be counted for the purpose of seniority in the grade and for eligibility for promotion etc.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 27th June 2007

No. F.6(2022)/2007-Admn.I.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12015/3/2006-ISS (Vol. II) dated 29.01.2007, Shri S. M. Mahajan, NFSG officer of ISS has assumed charge as Director in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 26.06.2007.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/8/2005-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri K. N. Pathak and Shri Shatrughan Lal, both regular Deputy Advisers of Planning Commission as Joint Adviser (Project Appraisal) and Joint Adviser (Industrial Economics/Management), respectively purely on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 14,300—18,300/- for a period of one year w.e.f. the forenoon of 21st June, 2007 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is also notified, in partial modification of the earlier Notification No. A-12025/5/2007-Admn.I. dated 4th April, 2007 that the ad-hoc appointment of Shri R. K. Kaul will be against the post of Joint Adviser (Industrial Economics/Management) in the same scale of pay w.e.f. the

forenoon of 21st June, 2007 and upto the same period as already notified i.e. upto 19.09.2007.

3. It is made clear that this ad-hoc appointment will not bestow on the above named officers any right to claim for regular appointment in the grade of Joint Adviser and also that any service rendered by them on ad-hoc basis in the grade of Joint Adviser would neither count for the purpose of seniority in the grade of Joint Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 29th June 2007

No. F.6(1846)/2002-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Shashi Kant, ad-hoc Deputy Adviser (Data Bank), Planning Commission retires from Government service w.e.f. 30.06.2007 (AN).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. F.6(2017)/2007-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Smt. Kailash Kochhar, JAG officer of IES and Deputy Adviser, Planning Commission retires from Government service w.e.f. 30.06.2007 (AN).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 3rd July 2007

No. A-19/G-A/88/2483.—On attaining the age of superannuation, Shri R. C. Miglani, Grade-I (DASS)/Superintendent in the Directorate of Education, Government of the NCT of Delhi on deputation to the Secretariat of the Election Commission of India in the ex-cadre post of Principal Private Secretary, retired from service w.e.f. the afternoon 30.06.2007.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE (DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

Chennai, the 6th July 2007

No. A-38013/3/2006-admn/Chn.—On attaining the age of superannuation Shri J. Joyce, Section Officer of the CSS Cadre in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Branch Secretariat, Chennai, retired from Government Service with effect from the afternoon of the 30th June, 2007.

R. RAJANGAM, Addl. Govt. Counsel

New Delhi, the 4th July 2007

A-12034/2/2004-Admn.IV(LA)Vol. II.—The President is pleased to appoint Shri M. Annadurai (IRLA No. 14673)

(presently working as Additional Private Secretary), as Officer on Special Duty in the personal section of the Hon'ble Minister of State for Law & Justice (Shri K. Venkatapathy) w.e.f. 01.03.2007 (FN) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-. However, Shri M. Annadurai will be entitled to Deputation (Duty) Allowance as per instructions contained in DoPT's OM No. 2/8/97-Estt.(Pay-II) dated 11th March, 1998.

2. The appointment of Shri M. Annadurai is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of Shri K. Venkatapathy as Minister of State for Law & Justice.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th July 2007

No. I-18012/16/2006-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of West Bengal in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Due date of Confirmation in IPS
	S/Shri	
1.	Sishu Ranjan Pal	06.02.2002
2.	Subrata Sarkar	06.02.2002
3.	Sankar Singh	21.04.2004
4.	Saroj Kumar Gajmer	01.03.2005
5.	Shyam Kumar Bhattacharya	23.03.2006

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 9th July 2007

No. I-45014/2/2006-IPS-I.—Ms. Sonia Verma, an Indian Police Service Officer of 2002 batch, borne on the Cadre of Nagaland, shall henceforth be known and recognized as "Smt. Sonia Singh" for all official purposes.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-45014/1/2007-IPS-I.—Shri V. Madhu Kumar Babu, an Indian Police Service Officer of 1991 batch, borne on the Cadre of Madhya Pradesh, shall henceforth be known and recognized as "V. Madhu Kumar" for all official purposes.

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi-1, the 9th July 2007

No. 14031/1/2007-UTS-I.—On attaining the age of superannuation, Shri Ratan Lal Meena, Indian Police Service

Officer of 1991 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th June, 2007.

V. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 28th June 2007

No. 13017/6/2007-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Uttarakhand & Punjab, the Central Government hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Sukhbir Singh Sandhu, IAS (UK : 88) from IAS Cadre of Uttarakhand to IAS cadre of Govt. of Punjab for a period of three years.

Further, the Central Government has ordered that his approval is subject to stipulation that Shri Sukhbir Singh Sandhu, IAS (UK : 88) is posted as the Secretary to the Chief Minister, Punjab as has been stated by the State Government of Punjab.

ASHWANI KUMAR, Director

New Delhi, the 5th July 2007

No. 39019/02/2007-Estt (B).—Consequent upon expiry of her term, Ms. Chokila Iyer has demitted the office of Member, Union Public Service Commission with effect from afternoon of 28th June, 2007.

Smt. SATI MOHANDAS, Under Secy.

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

New Delhi-110001, the 3rd July 2007

No. A-19013/01/2007-AR(Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri Ramu Gupta as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances with effect from the forenoon of 06th June, 2007 until further orders.

ANURAG SRIVASTAVA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th June 2007

No. Q/PA-I/29/2007.—On attaining the age of superannuation, Shri Butshikan Singh, Consul General, Consulate General of India, Melbourne retired from Grade-III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 31.05.2007.

ACQUINO VIMAL, Under Secy. (FSP)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 29th June 2007

No. A-22011/1/2007-Admn. IA.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 4th April, 2007, the President is pleased to appoint Shri V. K. Gupta, Senior Time Scale level officer of IES, as Assistant Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 28th March 2007 (date of deemed promotion 06.04.2004) and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, the 2nd July 2007

No. A-19011/20/2004-Admn.-II.—The President is pleased to appoint Shri Nagaraju Maddirala, IAS (MT : 93), Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Director in the same Department as a measure personal to him with effect from the forenoon of 2nd July 2007 for the balance period of his tenure up to 15.11.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A-19011/14/2005-Admn.-II.—The President is pleased to appoint Shri Anuj Arora, IAS (IT : 93), Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Director in the same Department as a measure personal to him with effect from the forenoon of 2nd July 2007 for the balance period of his tenure up to 15.08.2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 4th July 2007

No. A-19011/04/2007-Admn.II.—The President is pleased to appoint Dr. D. Subba Rao, IAS (AP : 72), presently Secretary, Department of Economic Affairs (Ministry of Finance) as Finance Secretary and Secretary, Department of Economic Affairs (Ministry of Finance), w.e.f. 4th July, 2007 (FN) and until further orders.

S. K. VERMA, Director

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 29th June 2007

No. A-11019/2/2007-EG.—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar Mishra-II of Indian Audit and Accounts Department, as Welfare Officer in the office of the Pr. Accountant General (Civil Audit), Orissa, Bhubaneswar

in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 02.04.2007 (FN) and until further orders.

R. PREM ANAND, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 20th June 2007

No. PFG(936)/07-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Sunil Gupta, IRS (IT : 87) as Officer on Special Duty to the Hon'ble Minister of Corporate Affairs (Shri Prem Chand Gupta) at the level of Director for a period of five years w.e.f. 18.06.2007 (FN) or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs earliest.

R. C. TULLY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 19th June 2007

No. A-19011/23/2007-E.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's communication No. 26/3/2007-EO (SM-I) dated the 13th June, 2007 and consequent upon appointment of Shri R. S. Gujral, IAS (HY : 76) as Director General of Foreign Trade w.e.f. 15.06.2007 (FN) Shri B. S. Meena, IAS (MH : 75), presently Directorate General of Foreign Trade will remain on compulsory wait w.e.f. 15th June, 2007 in the Department of Commerce until further orders.

2. Shri B. S. Meena IAS (MH : 75) will draw his salary from the Directorate General of Foreign Trade till he is given an alternative posting in some other Ministry/Department for the balance period of his Central deputation tenure.

ANURAG SAXENA, Director

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 3rd July 2007

No. 6/2430/2007/HRD-I/3137.—Consequent on his appointment to the post of Zonal Joint Director General of Foreign Trade (Director level) by the Department of Personnel & Training, Shri Pronobananda Haldar has assumed the charge of the post of Zonal Joint Director General of Foreign Trade, Kolkata with effect from the forenoon of 1st June, 2007 for a period of five years from the date of his taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

MUKESH BHATNAGAR, Jt. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 25th June 2007

No. 12/2007 (A-12026/3/2006-Esst).—President is pleased to appoint Smt. K. Nirmala, W/o Shri T. Vasantha Kumar,

5-15241/07

residing at AG 103, River View Colony, New No. 55, Anna Nagar, Chennai, as Assistant Private Secretary to Minister of State for Textiles (Shri E. V. K. S. Elangovan) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from the forenoon of 1st April, 2007.

2. The appointment of Smt. K. Nirmala will be co-terminus with that of Sh. E. V. K. S. Elangovan, Minister of State for Textiles, or for the period desired by him, or until further orders, whichever is earlier.

J. P. DUTT, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 25th June 2007

No. A-32011/4/2005-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's OM No. 5/25/2004-CS.I dated 22.02.2007 regarding inter-cadre transfer in Section Officer's Grade, the President is pleased to appoint Shri Akhilesh Kumar, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) borne on the cadre of Ministry of Rural Development as Section Officer of CSS in the Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- against the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003 w.e.f. the forenoon of 21.05.2007.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

New Delhi, the 6th July 2007

No. P-23011/1/2006-Mkt.—In terms of Sub-section (1) of Section 4 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby appoints Ms Sudha Mahalingam, as Member of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) for a period of five years with effect from 3rd July, 2007 or till the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

PREM KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 5th June 2007

No. 1/2/FICC/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Goel, Assistant Director (Functional) born on the cadre of the Department of Fertilizers as Accounts Officer on deputation basis in the office of the Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- initially for a period of three years or until further orders, whichever is earlier, with effect from the afternoon of 31.05.2007.

M. DANDAYUDHAPANI, Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 21st June 2007

No. 3/24/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri J. S. Mann as Private Secretary to the Minister of Mines (Shri Sis Ram Ola) at the level of Director from 08.03.2007 and upto 30.06.2008 i.e. till the date of his superannuation or till he ceases to function as PS to the Minister or until further orders, whichever event takes place the earlier.

PRAMOD CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 22nd June 2007

No. A-18011(90)/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Avnish Rastogi, a permanent Assistant of the CSS Cadre, as Section Officer on purely ad-hoc basis with effect from the afternoon of 14th June, 2007, initially for the period upto 30th June, 2007.

2. The ad-hoc appointment of Shri Rastogi shall not confer any right to continue him in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS. His ad-hoc appointment may continue till regular candidate in the Section Officers' Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination. In the event of not qualifying for regular appointment in either of these two categories, he will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular officer from the Department of Personnel & Training.

P. S. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 5th July 2007

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri Sandip Biswas, Dy. Manager (Secretarial) in the office of the Hindustan Cable Ltd., a Govt. of India Undertaking, Kolkata as Deputy Director (Law) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Forward Markets Commission, Mumbai for a further period of one year (Third year) with effect from 16th August, 2007 to 15th August, 2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Ms. U. K. Tharthare, as Assistant Director (Accounts/Finance) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (Third year) with

effect from the 18.05.2007 to 17.05.2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Smt. C. R. Dhavle, as Assistant Director (Economics) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (Third year) with effect from the 18.05.2007 to 17.05.2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri J. D. Vaishampayan, as Assistant Director (Law) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (Third year) with effect from the 18.05.2007 to 17.05.2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri Anupam Mishra, Deputy Director in the Office of the Forward Markets Commission, Mumbai, as Director (Facilitation, Public Relation Grievances Redressal/Public Awareness Programme) in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500 in the Forward Markets Commission, Mumbai for a further period of one year (Third year) with effect from the forenoon of the 18th May, 2007 to 17th May, 2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri B. D. Raibhole, as Assistant Director (Economics) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (Third year) with effect from the 25.05.2007 to 24.05.2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Smt. Rashmi Aggarwal, Assistant Programmer in the Directorate of Economics & Statistics and Office of the Chief Registrar (Birth & Death), Delhi as Assistant Director (I. T.) in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in the Forward Markets Commission, Mumbai for a further period of one year (Third year) with

effect from the forenoon of the 28th June, 2007 to 27th June, 2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri Prabhakar R. Patil, Deputy Director in the office of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) as Director (Economics) in the scale of pay of Rs. 14,300—18,300/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (Third year) with effect from the 18th August, 2007 to 17th August, 2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri V. N. Shivathare, Economic Officer as Assistant Director (Economics) in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (Second year) with effect from the forenoon of the 29th September, 2007 to 28th September, 2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-11011/03/04-Estt.—The President is pleased to extend the period of deputation of Shri S. G. Kulkarni, Deputy Director in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- in the Forward Markets Commission, Mumbai, for a further period of one year (Third year) with effect from the 11.10.2007 to 10.10.2008 or till further orders, whichever event occurs earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 29th June 2007

No. A-38018/02/2007-Estt.—The President is pleased to retire Shri Vinod Kumar Gupta, Private Secretary, Department of Scientific and Industrial Research from the Government service on attaining the age of superannuation on 30.06.2007 (FN).

A. K. TANEJA, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCE

New Delhi, the 2nd July 2007

No. MoES/31/3/2007-Estt.—Competent Authority in the Ministry of Earth Sciences is pleased to appoint Shri Ashim Kumar Mazumdar and Shri S. K. Chowdhury, Junior Technical Assistants to the post of Junior Analyst on

ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Earth Sciences w.e.f. 20.10.2006 to 18.04.2007 and from 20.04.2007 to 19.10.2007 or until further orders whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularization of the same for the benefits such as seniority etc. on a future date. The Ministry reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reasons or giving notice etc. to the officer concerned.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 26th June 2007

No. A-23012/1/2005-P.II(.)—Consequent upon his inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of CSS for the year 2003 against Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's O. Ms. No. 5/25/2004-CS.I dated the 5th June, 2006 and 15th May, 2007, the President is pleased to appoint Shri P. C. Mamgain, Section Officer (Ad-hoc) to the post of Section Officer of CSS in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of the 15th May, 2007.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 28th May 2006

No. A-32013/4/2006-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri Pravir Krishna, IAS (MP : 87) as Joint Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 28th May, 2007 for the balance period of his Central deputation tenure of five years i.e. upto 15.02.2009 or until further orders, whichever is earlier.

P. R. A. NAIR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 29th June 2007

No. A-11019/2/2005-PH(F).—On attaining the age of superannuation Dr. V. K. Dhingra, Director, Food Research and Standardization Laboratory, Ghaziabad retired from Government service with effect from 31.05.2007 (Afternoon).

VIJAY KUMAR, Director (Admn.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 8th June 2007

No. A-32024/1/2006-E-III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/8/2006-

CS.II dated 01.03.2007 & 20.04.2007, the President is pleased to appoint Smt. Harbans Kaur, Stenographer Grade 'C' belonging to CSSS cadre of the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce as Private Secretary in the cadre of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education w.e.f. the forenoon of 01.06.2007 in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on ad hoc basis upto 30.06.2007 or until further orders.

K. K. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 30th April 2007

No. A-32014/1/2006-Admn.I.—The President is pleased to appoint the following Assistants (SL-1994) of Central Secretariat Service cadre of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology, as Section Officers on ad-hoc basis in this Department in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the dates mentioned against each, initially for the period upto 30.06.2007:—

Sl. No.	Name of the Official	Category	Date of Birth	Date of charge assumption report
1.	Sh. Raymond Tigga	ST	03.07.1957	24.04.2007
2.	Smt. Prerna Sharma	ST	03.02.1964	18.04.2007

2. Ad-hoc promotions/appointments to the grade of Section Officer is subject to the following conditions:—

- The ad-hoc appointments shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS;
- ad-hoc arrangements may continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's grade on availability of such regular officers.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 3rd May 2007

No. A-12033/1/2003-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Balram Sharma, IAS (HP : 85) as Joint Secretary in the Department of Telecommunications in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of the 30th April, 2007 upto 28th February, 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 8th May 2007

No. A-32014/2/2006-Admn.I.—Consequent on her nomination to Telecommunications cadre for appointment as Stenographer 'A' & 'B' (merged) of CSSS on ad-hoc basis, the President is pleased to appoint Smt. Savita Arora, a Steno Grade 'C' of Ministry of Home Affairs, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS on ad-hoc basis in the Department of Telecommunications in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 01.05.2007 to 30.06.2007 or till the availability of regular Private Secretary [Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged)] or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officer for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade [Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged)].

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 16th May 2007

No. A-32014/2/2006-Admn.I.—Consequent on her nomination to Telecommunications cadre for appointment as Stenographer 'A' & 'B' (merged) of CSSS on ad-hoc basis, the President is pleased to appoint Smt. Saroj Kapila, a Steno Grade 'C' of Ministry of Home Affairs, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS on ad-hoc basis in the Department of Telecommunications in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 07.05.2007 (AN) to 30.06.2007 or till the availability of regular Private Secretary [Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged)] or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officer for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade [Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged)].

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 18th May 2007

No. 36-1/2007-Admn.I.—The President is pleased to appoint the following officers to the posts and in the pay scales mentioned against their names, in the formal staff of Minister of Communications & Information Technology (Shri A. Raja), with effect from the forenoon of 16th May, 2007:—

Sl. No.	Name of the officer	Appointed as in the pay scale of	Designation in the parent Department
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	Aseervatham Achary	Addl. Private Secretary Rs. 10000—15200/-	Section Officer, M/o Railways, Railway Board

1	2	3	4
	S/Shri		
2.	R. Venkateshwaran	Addl. Private Secretary Rs. 10000—15200/-	JA0 (CMTS), BSNL, Tiruchirapalli, Tamil Nadu
3.	D. Vellaisamy	Asstt. Private Secretary Rs. 6500—10500/-	Sr. Administrative Assistant, District Legal Services Authority, Perambalur, Tamil Nadu
4.	P. Arivuchelvan	First P. A. Rs. 6500—10500/-	Non-official

2. The appointment of the above officers is at the discretion of and co-terminus with the tenure of Minister of Communications & Information Technology.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 6th June 2007

No. A-12026/1/2005-Admn.I.—Consequent upon her promotion to the Junior Administrative Grade of IES and subsequent nomination to the Department of Telecommunications vide Minister of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. 11016/3/2007-IES; dated 16.05.2007, Ms. Indrani Kaushal, IES is hereby appointed as Deputy Economic Adviser in Department of Telecommunications, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 25th May, 2007 till further orders.

2. The promotion of Ms. Indrani Kaushal is subject to the final order in Civil appeal 1366-1367/2004, pending with the Apex Court and she will Writ Petition 5953/2002 pending in the High Court of Delhi.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

CORRIGENDUM

No. A-32014/2/2006-Admn.I.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 16th May, 2007 the joining time of Smt. Saroj Kapila as Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS on ad-hoc basis in the Department of Telecommunications (seventh line of para 1) may be read as 07.05.2007 (FN) instead of 07.05.2007 (AN).

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 19th June 2007

No. A-12026/1/2005-Admn.I.—Consequent upon his promotion to the Junior Administrative Grade of IES and subsequent nomination to the Department of Telecommunications vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. 11016/3/2007-IES, dated 06.06.2007, Shri Ajay Srivastava, IES is hereby appointed

as Deputy Economic Adviser in Department of Telecommunications, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the forenoon of 13th June, 2007 till further orders.

2. The promotion of Shri Ajay Srivastava is subject to the final order in Civil appeal 1366-1367/2004, pending with the Apex Court and Civil Writ Petition 5953/2002 pending in the High Court of Delhi.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 4th July 2007

No. 2(5)/2006-PA(TB).—The President is pleased to appoint Shri Amitabh Ranjan, ATRO, Transport Commissioner Office, Lucknow as Deputy Director in Electronics Test & Development Centre (ETDC), Pune under STQC Directorate, Department of Information Technology in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis initially for a period of two years w.e.f. 22.06.2007 (FN) on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Director

No. 2(5)/2006-PA(TB).—The President is pleased to appoint Shri G. S. Namboothiry, Under Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Shastri Bhawan, New Delhi as Deputy Director in Electronics Regional Test Laboratory, ERTL (South), Thiruvananthapuram under STQC Directorate, Department of Information Technology in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis initially for a period of two years w.e.f. 18.05.2007 (FN) on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Director

No. 2(5)/2006-PA(TB).—The President is pleased to appoint Shri P. P. Garg, Section Officer, Ministry of Finance, New Delhi as Deputy Director in Electronics Regional Test Laboratory, ERTL (West), Mumbai under STQC Directorate, Department of Information Technology in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis initially for a period of two years w.e.f. 13.06.2007 (FN) on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Director

The 5th July 2007

No. 2(5)/2006-PA(TB).—The President is pleased to appoint Shri S. S. Rawat, Deputy Director, Department of Information Technology, New Delhi as Joint Director in

Electronics Regional Test Laboratory, ERTL (North), New Delhi under STQC Directorate, Department of Information Technology in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis initially for a period of two years w.e.f. 27.06.2007 (FN) on usual terms & conditions of deputation.

SATVIR SINGH, Dy. Director

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 28th June 2007

No. 9-25/2007-SPG.—Shri R. K. Maltare, Desk Officer (Planning), an officer of Postal Service Group 'B' in Department of Posts, is retiring from Govt. service w.e.f. 30.06.2007 (AN) on attaining the age of superannuation.

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

The 29th June 2007

Subject : Promotion to Senior Time Scale (Rs. 10,000-325-15,200/-) of Indian Postal Service Group 'A'.

No. 4-2/2007-SPG.—The President is pleased to appoint the following officers of Junior Time Scale of Indian Postal Service Group 'A' to officiate on regular basis in the Senior Time Scale of the said Service (Pay Scale Rs. 10,000-325-15,200/-) w.e.f. 01.04.2007 :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Present Posting
	S/Shri		
1.	Murahari G.	—	AP Circle
2.	Gurudas B.	—	AP Circle
3.	Bhavar L. B.	—	Maharashtra Circle
4.	Joshi Suphita A. Ms.	2002*	Maharashtra Circle
5.	Srinivasan Jagannath	2002*	Delhi Circle
6.	Sharma Shipra Ms.	2002*	MP Circle
7.	Sharma Aman	2002*	Delhi Circle
8.	Ayodhya Sumitha Ms.	2002*	AP Circle
9.	Visalatchy N R Ms.	2002*	AP Circle
10.	Daksh Vivek Kumar	2002*	UP Circle
11.	Singh Iqbal	—	HP Circle
12.	Gangal B S	—	Rajasthan Circle

* Seniority is provisional.

2. In case the officers wish to give option for choosing the date for fixation of pay under FR-22(i)(a)(i), they should do so within one month from the date of issue of this order.

3. In case any vigilance/disciplinary case of the type referred to in O. M. No. 22011/2/91-Estt. dated 14.09.92 issued from the Department of Personnel & Training circulated vide this office Memo No. 25-19/88-SPG dated 13.10.92 is pending

against any officer, a detailed report should be sent to this office immediately and the officer concerned should not be promoted without obtaining specific orders from this office.

Relevant charge reports may be sent to this office in due course and at the earliest possible.

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 5th July 2007

No. A-38020/1/2006-E.II.—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri T. B. Banerjee, Chief Engineer, an officer of Central Engineering Service (Roads), Group 'A' in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi relinquished the charge of the post of Chief Engineer w.e.f. 30.06.2007 (AN).

B. N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 15th June 2007

No. 11/2007. F. No. 1/2/2006-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Mahesh Dutt Sharma, S/o Shri Ghanshyam Dutt Sharma, resident of NH-2, Andhra Bhavan, 1, Ashoka Road, New Delhi, presently working as Assistant Private Secretary in the personal staff of the Hon'ble Minister of Power (Shri Sushil Kumar Shinde) as Additional Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of the 13th June, 2007 on co-terminus basis with the tenure of the Minister or so long as desired by him, whichever is earlier.

R. C. ARORA, Under Secy.

The 21st June 2007

No. 12/2007. F. No. 1/2/2006-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Pushkar Sharma, Senior Clerk of the Lok Sabha Secretariat, who is presently working as First Personal Assistant in the personal staff of the Hon'ble Minister of Power (Shri Sushil Kumar Shinde), on deputation basis, as Assistant Private Secretary to the Minister of Power in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of the 18th June, 2007. (The appointment of Shri Sharma is on deputation on co-terminus basis with the tenure of the Minister or as desired by the Minister or until further orders, whichever is the earliest.)

R. C. ARORA, Under Secy.

The 3rd July 2007

No. 13/07. F. No. 2/2/2007-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Verma, IAS (OR : 1987) as

Joint Secretary & Financial Adviser in the Ministry of Power, with effect from the forenoon of 2nd July, 2007 for the balance period of his normal tenure of five years i.e. upto 1st April, 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi, the 11th June 2007

No. 6/384/06-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Joshi, a regular Section Officer on the CSS Cadre of the Ministry of Finance, to the post of Under Secretary in the Ministry of New and Renewable Energy purely on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of the 25th September, 2006.

2. The adhoc promotion of Shri A. K. Joshi shall not confer upon him any right to continue in the grade

indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim in the Grade I of CSS.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 3rd July 2007

No. 7/22/2005-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri Maujesh Tarachand Agrawal as Asstt. Executive Engineer in the pay scale of Rs. 8,000—13,500 in Central Ground Water Board with effect from 17.05.2007.

He will be on probation for a period of one year with effect from the date of his joining which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.